



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

**भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941–सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941–September 19, 2019**

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8759 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Mukundgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Mukundgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.**

**कार्यालय नगरपालिका मुकुंदगढ़ जिला झुंझुनू राज
प्रपत्र-क**

क्रम सं.	वार्ड सं.	वार्ड सीमा विवरण
	1	कनोरिया कुवा व् शिवालय से पश्चिम में गिरधारी लाल गुर्जर के मकान बार्यों ओर शामिल करते हुए जयसिंह गुर्जर के मकान तक. यहाँ से दक्षिण में कचे रास्ते-रास्ते चलते हुए जुगलकिशोर चेजारा के घर को बार्यों ओर शामिल कर थोड़ा पूर्व में चलकर दक्षिण में मुड़कर आगे चलते हुए रणजीत राव के घर को बार्यों ओर शामिल कर कुम्हिलाल कटेवाला के नोहरे तक, यहाँ से पूर्व में चलते हुए शिवालय मंदिर तक, यहाँ से उत्तर में मंडावा रोड चलते हुए राणीसती मंदिर को बार्यों ओर शामिल करते हुए कनोरिया कुवा व् शिवालय तक।
	2	श्री रामस्वरूप चेजारा के घर से पश्चिम में नगरपालिका की सरहद चलते चलते पशु चिकित्सालय तक! यहाँ से दक्षिण में पालिका सरहद चलते हुए जोहड़ में बसे परिवारों को बार्यों ओर शामिल करते हुए कुवा गंगाराम मुरारका व् फतेहपुर जाने वाले रास्ते व् नगरपालिका सरहद तक ! यहाँ से पूर्व में सड़क सड़क चलते हुए यंहाँ से पूर्व में टिबदेवाला गेस्ट हाउस व् भानदास मंदिर को बार्यों ओर शामिल करते हुए, गोपीनाथजी मंदिर तक। यहाँ से मंदिर को बार्यों और शामिल कर उत्तर में

		सङ्क सङ्क चलते हुए मुकेश शर्मा की आटा चक्की तक ! यहाँ से पश्चिम में रास्ते रास्ते चलते हुए! श्री गंगाराम बिशन टीबडेवाला के मकान तक ! यहाँ से उत्तर में ओमप्रकाश नाई के मकान को बार्यों और शामिल कर मदनलाल शर्मा के प्लाट तक ! यहाँ से सङ्क पार कर उत्तर में शिवालय को बार्यों और शामिल कर यहाँ से थोड़ा पूर्व में चलकर रामप्रताप चेजारा के मकान को बार्यों और शामिल कर उत्तर में चलते हुए रामस्वरूप चेजारा के घर तक का समस्त बायां क्षेत्र !
	3	सार्वजनिक पुस्तकालय से पश्चिम में फतेहपुर जाने वाली सङ्क-सङ्क चलते हुए गंगाराम मुरारका कुवा व् नगरपालिका सरहद तक ! यहाँ से भी चरी जाने वाली सङ्क के पार कर पालिका सीमा -सीमा चलते हुए ! क्यामखानी मोहल्ला व् बिर्ख शमशान व् बाबूलाल सैनी के घर को बार्यों और शामिल करते हुए यहाँ से पूर्व में सङ्क सङ्क चलते हुए गनेडीवाला के कुवा तक यहाँ से इस कुवे के दाई और छोड़कर नटवर सैन को बार्यों और शामिल कर दक्षिण में महेश महर्षि के प्लाट तक ! यहाँ से पूर्व में बनवारीलाल पांडे के मकान को बार्यों और शामिल करते हुए विश्वनाथ कनोई के मकान तक! यहाँ से उत्तर में सङ्क-सङ्क चलते हुए सार्वजनिक पुस्तकालय तक का समस्त बायां क्षेत्र !
	4	श्री राधाकिशन कनोई के घर से पश्चिम में रास्ते-रास्ते चलते हुए केशरदेव सैनी के घर तक यहाँ से उत्तर में नन्दलाल सैनी को बार्यों और शामिल करते हुए गनेडीवालों के कुए तक ! यहाँ से पश्चिम में रास्ते रास्ते चलते हुए रतनलाल सैनी के घर को बार्यों और शामिल कर तथा बिर्खों की जोहड़ी को दाई और छोड़कर नगरपालिका सरहद तक ! यहाँ से दक्षिण में न.पा. सीमा से चलकर रास्ते तक ! यहाँ से पूर्व में रास्ते रास्ते चलते हुए कब्रिस्तान को दार्यों और छोड़ते हुए मालियों के मोहल्ले को बार्यों और शामिल करते हुए गनेडीवालों की छतरी तक! यहाँ से उत्तर में सङ्क सङ्क चलते हुए राधा किशन कनोई के मकान तक !
	5	सराफो की हवेली से पश्चिम में रास्ते रास्ते चलते हुए आगे कब्रिस्तान को बार्यों और शामिल करते हुए न.पा. सरहद तक ! यहाँ से दक्षिण में नगरपालिका सरहद चलते हुए कामदारों वाले कुए के रास्ते तक ! यहाँ पूर्व में रास्ते रास्ते चलते हुए अयूब पुत्र जब्बार व्यापारी के मकान तक ! यहाँ से इस मकान को दाहिनी और छोड़ते हुए मदन सिंह राजपूत के मकान को बार्यों और शामिल करते हुए तथा दक्षिण में सङ्क सङ्क चलते हुए ओमप्रकाश पुत्र श्री महादेव सिंह बिर्ख के नोहरे तक ! यहाँ इस नोहरे को बार्यों और शामिल कर पूर्व में एक अनुमानित रेखा पार कर खेमचंद बिर्ख के मकान को बार्यों और शामिल कर बाजार जाने वाली सङ्क तक ! यहाँ से उत्तर में सङ्क सङ्क चलते हुए सराफो की हवेली तक का समस्त बायां क्षेत्र !
	6	श्री घासीराम सैनी के मकान से पश्चिम चलते हुए एक अनुमानित रेखा पार कर सरदाराराम सैनी के खाली प्लाट तक ! यहाँ से इस प्लाट को दाहिनी और छोड़कर उत्तर में रास्ते रास्ते चलते हुए तथा सुखदेव सिक्का के मकान को बाई और शामिल करते हुए अयूब पुत्र जब्बार व्यापारी के मकान तक ! यहाँ से पश्चिम रास्ते रास्ते

		चलते हुए नगरपालिका सरहद तक यहाँ से दक्षिण में नगरपालिका सरहद सरहद चलते हुए लक्ष्मणगढ़ रोड तक ! यहाँ से पूर्व में सड़क चलते हुए सुभाष मील की दुकान तक ! यहाँ इस दुकान को दार्यों और छोड़कर उत्तर में एक अनुमानित रेखा चलते हुए हाकम काजी व् इस्माइल व्यापारी को बार्यों और शामिल कर घासीराम सैनी के मकान का समस्त बायाँ क्षेत्र !
	7	सेठ जमनाधर सागरमल बागडोदिया औधोगिक प्रशिक्षण केंद्र से पश्चिम में रास्ते रास्ते चलते हुए श्री श्यामसुंदर चेजारा के मकान को बार्यों और शामिल करते हुए व् एक अनुमानित रेखा पार करते हुए सराफो के जोड़ की दक्षिण पश्चिम कुंट व् मुमताज काजी के घर व् लक्ष्मणगढ़ जाने वाले कच्चे रास्ते तक ! यहाँ से दक्षिण में रास्ते रास्ते चलते लक्ष्मणगढ़- मंडी रोड तक ! यहाँ से रोड रोड पश्चिम में चलकर नगरपालिका सरहद तक ! यहाँ से दक्षिण में नगरपालिका सरहद चलते हुए पबाना का बास जाने वाले रास्ते तक ! यहाँ से पूर्व में रास्ते रास्ते चलते हुए सावरमल जांगिड़ के घर को बार्यों और शामिल कर जयपुर लोहारू सड़क तक ! यहाँ से उत्तर में सड़क सड़क चलते हुए मंडी पोस्ट ऑफिस को बार्यों और शामिल कर ओमप्रकाश पानवाले व् प्याऊ मंडी चोराहा तक ! यहाँ से पश्चिम में लक्ष्मणगढ़ रोड चलते हुए रामस्वरूप जोशी के बाड़े तक ! यहाँ से उत्तर में मंडी से मुकुंदगढ़ शहर जाने वाली रोड रोड चलते हुए सेठ जमनाधर सागरमल बागडोदिया औधोगिक प्रशिक्षण केंद्र (आई टी आई) का समस्त बायाँ क्षेत्र !
	8	रेल्वे स्टेशन से पश्चिम में मुख्य बाजार चलते हुए मुख्य चोराहा तक ! यहाँ से दक्षिण में जयपुर लोहारू रोड चलते हुए पेंट्रोल पंप को बार्यों और शामिल कर आगे नगरपालिका सीमा तक ! यहाँ से पूर्व में सड़क सड़क चलते हुए फूलसिंह दुलर के मकान को बार्यों और शामिल कर आगे चलकर रेल्वे फाटक तक ! यहाँ उत्तर में रेल्वे लाइन लाइन चलकर रेल्वे स्टेशन तक का समस्त बायाँ क्षेत्र !
	9	रेल्वे स्टेशन से पश्चिम में सड़क सड़क चलते हुए मुख्य चोराहा एवं हरफूल सिंह जांगिड़ की दुकान तक ! यहाँ से उत्तर में जयपुर लोहारू रोड चलते हुए कनोडिया अस्पताल व प्रेमपाल दुलर को दाहिनी और शामिल करते हुए देवनारायण गुर्जर की दुकान तक ! यहाँ से पूर्व में रास्ते रास्ते चलते हुए शुभकरण माली के घर को बार्यों और छोड़ते हुए रेल्वे लाइन व नगरपालिका सीमा तक ! यहाँ से दक्षिण में नगरपालिका सरहद चलते हुए रेल्वे स्टेशन तक !
	10	श्री सोकत अली ट्रांसपोर्ट कम्पनी से पश्चिम में रोड रोड चलते हुए युनुस पठान की दुकान तक ! यहाँ से उत्तर में सड़क सड़क चलते हुए कनोडिया कोठी को दाहिनी और शामिल करते हुए नन्दमोदी की प्याऊ तक ! यहाँ से पूर्व में ओमप्रकाश बिर्ख की दुकान तक यहाँ से दक्षिण में भंवरजी स्वामी के घर को दार्यों और शामिल करते हुए व दिनेश शर्मा के मकान को बार्यों और छोड़कर रामनिवास चेजारा के मकान तक ! यहाँ से पूर्व में सड़क सड़क चलते हुए हाइलैंड हाउस की दुकानों को दाहिनी और शामिल करते हुए जयपुर लोहारू सड़क तक ! यहाँ से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए हारून चोपदार की दुकान को दाहिनी और शामिल करते हुए शोकत अली

		ट्रांसपोर्ट तक का समस्त दाहिना क्षेत्र !
11		श्री विक्रम सिंह चेजारा व दिनेश जांगिड के कारखाने से उत्तर में सड़क सड़क चलते हुए गैस एजेन्सी को बायीं और शामिल कर मुंशी सब्जी फरोस के मकान तक ! यहाँ से पश्चिम चलते हुए रामकरण सिंह जाट के मकान तक ! यहाँ से दक्षिण में चलते हुए शारदा नर्स के मकान को शामिल कर व पन्नालाल कुम्हार के मकान तक! यहाँ से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए श्याम सुन्दर कुम्हार के मकान को बायीं और शामिल करते हु मटरूमल गोमाराम मेघवाल के घर तक ! यहाँ से पश्चिम में मुड़कर थाने को बायीं और शामिल करते हुए सुलभ शोचालय तक! यहाँ से दक्षिण में पटवार घर व् दिनेश शर्मा के घर को बायीं और शामिल कर पूर्व में सड़क सड़क चलते चलते नीरु शेखावत को शामिल करते हुए विक्रम चेजारा की दुकान व दिनेश जांगिड के कारखाने तक का समस्त बायाँ क्षेत्र
12		प्रसूतिगृह से पूर्व में सड़क सड़क चलकर सुमेरुराम पुत्र हरदेवाराम मेघवाल के घर तक ! यहाँ से उत्तर में सुभाष कुमार मेघवाल को बायीं और शामिल कर मूलाराम पुत्र उदाराम कुम्हार के घर तक ! यहाँ से पश्चिम भोलूराम जोगी के घर को बायीं और शामिल कर बद्रीप्रसाद लुहार के खाली प्लाट व कालूराम चेजारा को बायीं और शामिल कर बाबूलाल पुत्र श्योकरण चेजारा के मकान तक ! यहाँ से दक्षिण में पीर जी की दरगाह को बायीं और शामिल कर लाल कुए तक ! यहाँ से श्री सीताराम सैनी के घर को बायीं और शामिल करते हुए प्रसूतिगृह तक !
13		श्री राम निवास चेजारा के मकान से पश्चिम में डालचंद व विशम्भर सिकलीगर के मकान तक ! यहाँ दक्षिण में बिडिचंद कलाल को बायीं और शामिल कर महिपाल दुलर के घर तक ! यहाँ पश्चिम में सड़क सड़क चलते हुए सराफो के जाव में बसे व्यापारियों के मोहल्ले को बायीं और शामिल करते हुए सराफो के कुए तक ! यहाँ से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए रजाक काजी के घर तक ! यहाँ से पूर्व में चलते हुए हारून व्यापारी के मकान को बायीं और शामिल कर कॉलेज फिल्ड में से एक अनुमानित रेखा पार करते हुए कॉलेज व क्वार्ट्स को बायीं और शामिल कर तथा औधोगिक प्रशिक्षण केंद्र को दाहिनी और छोड़कर मंडी जाने वाली सड़क तक ! यहाँ से उत्तर में सड़क सड़क चलते हुए कनोडिया कॉलेज व नगरपालिका कार्यालय व लाल कुए को बायीं और शामिल कर उत्तर में सीधे रामनिवास चेजारा के घर तक !
14		मन्नू खत्री के मकान से दक्षिण में रास्ते रास्ते चलते हुए सफी व्यापारी के मकान तक ! यहाँ से पश्चिम में रास्ते रास्ते चलते हुए भगवता सिद्ध मन्दिर को दाहिनी और शामिल करते हुए मोहम्मद हुसैन सिक्का के मकान तक! यहाँ से उत्तर में यासीन पुत्र निसार व्यापारी के मकान तक! यहाँ से पूर्व में रास्ते रास्ते चलते हुए जाफर बसीर व्यापारी को बायीं और छोड़ते हुए मन्नू खत्री के मकान तक का समस्त दाहिना क्षेत्र !
15		श्री राधेश्याम जोशी के घर से पश्चिम में सड़क सड़क चलते हुए व् महेश महर्षि के मकान को बायीं और शामिल करते हुए ओमप्रकाश पुखिया के गेस्ट हाउस तक! यहाँ से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए जाफर पुत्र आमीन व्यापारी के मकान तक! यहाँ

		से पूर्व में चलते हुए जब्बार पुत्र गुलाम हुसैन खत्री के मकान तक ! यहाँ से उत्तर में सड़क सड़क चलते हुए बागडोदिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बार्यों और शामिल करते हुए राधेश्याम जोशी के घर तक का समस्त बायां क्षेत्र !
16		श्री नरसी, भागचंद दरजी के मकान से उत्तर में सड़क सड़क चलते हुए बावलिया बाबा के मंदिर को बार्यों और शामिल करते हुए बाजार को पार कर श्री रामनिरंजन शर्मा के मकान तक ! यहाँ से पश्चिम अशोक गुर्जर के मकान व् विष्णु साबुन फैकट्री को बार्यों और शामिल कर सुभाष कुमार हाकला के मकान तक ! यहाँ से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए श्री गोपीनाथ जी मंदिर को दार्यों और छोड़कर जगदीश प्रसाद स्वामी की दुकान व् आगे गीगी देवी चौखानी प्राथमिक स्कूल को बार्यों और शामिल कर महावीर जी तोलासरिया के मकान व् बगीची तक! यहाँ से पूर्व में रास्ते रास्ते चलते हुए हरिराम शाह हवेली को बार्यों और शामिल कर नरसी, भागचंद दरजी ले मकान का समस्त बाया क्षेत्र !
17		श्री रामवतार द्वारका प्रसाद पुजारी के मकान से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए गढ़ की दक्षिण पश्चिम कूट तक! यहाँ से पूर्व में रास्ते -रास्ते चलते हुए ओमप्रकाश चेजारा के मकान को बार्यों और शामिल करते हुए उम्मेद पुत्र खाजू कलाल के मकान तक ! यहाँ से उत्तर में चलते हुए शारदा नर्स के मकान को दाहीनी और छोड़कर विश्वम्भर सिक्कीगर के मकान तक ! यहाँ से पूर्व में सड़क सड़क चलते हुए दीपक पुत्र बनवारी लाल चेजारा के मकान तक! यहाँ से उत्तर में श्री विजय कुमार जगनानी के मकान को दाहिनी और छोड़कर व् श्री बनवारी पुत्र श्री नागरमल माली के प्लाट तक ! यहाँ से पश्चिम में रास्ते रास्ते चलते हुए शीशपाल गुजर के मकान व् तगाला गेस्ट हाउस को बार्यों और शामिल करते हुए रामवतार/द्वारका प्रसाद पुजारी के मकान का समस्त बाया क्षेत्र !
18		इकबाल लीलगर के मकान से दक्षिण में चलते हुए बाबू हाजी तगाला के नोहरे तक! यहाँ से दक्षिण में सड़क पार कर कालू सांसी के मकान व् जलदाय विभाग को बार्यों और शामिल कर कजोड़मल कुम्हार के मकान तक ! यहाँ थोड़ा पूर्व में मुड़कर दक्षिण में चलते हुए प्रभु जांगिड के नोहरे को बार्यों और शामिल कर राजकुमार सुनार के मकान तक ! यहाँ से पश्चिम में बजरंगलाल धुवारिया के मकान तक ! यहाँ से दक्षिण में विजय कुमार जगनानी के मकान तक ! यहाँ से पूर्व में चलते हुए आत्माराम शर्मा की चक्की को बार्यों और शामिल कर गिरधारी लाल मोदी के नोहरे तक ! यहाँ से उत्तर में जलदाय विभाग व् ढाचोलीया फैकट्री को बार्यों और शामिल कर विजेंद्र कुमार जाट की दुकान व् बाड़े तक ! यहाँ से पश्चिम में एक अनुमानित रेखा पार कर सिताराम खटिक, रामनिवास, बजरंगलाल के मकान को बार्यों और शामिल कर रमेशचंद्र वाल्मीकि के मकान तक! यहाँ से थोड़ा दक्षिण में मुड़कर पश्चिम में चलते हुए मदरसा को बार्यों और शामिल कर इकबाल लीलगर के मकान का समस्त बाया क्षेत्र !
19		मंडावा मोड़ से दक्षिण में सीकर झुंझुनू रोड चलते हुए केशर देव कुम्हार की दुकान, प्रभुदयाल पंडित के मकान को बार्यों और शामिल करते हुए युसूफ तगाला के नोहरे

		तक ! यहाँ से पूर्व में रास्ते रास्ते चलते हुए शुभकरण मालियों के खेत को बार्यों और शामिल करते हुए न.पा. मुकुंदगढ़ की सरहद तक ! यहाँ से उतर में पालिका सरहद सरहद चलते हुए न.पा. सरहद तक ! यह से पश्चिम में इनायत लुहार को शामिल कर पालिका सरहद सरहद चलते हुए मंडावा मोड़ तक का समस्त बाया क्षेत्र!
	20	सुरेका शिवालय से पूर्व की ओर सड़क सड़क चलते हुए पवन शर्मा के मकान तक ! यहाँ से उतर में गिरधारी लाल चेजारा के मकान को बार्यों और शामिल कर सत्यानारायन चेजारा के खाली प्लाट तक ! यहा से उतर में बेरिवालों के नोहरे को बार्यों और शामिल कर बस स्टैंड जाने वाली सड़क तक ! यहाँ से पश्चिम में ठडे वाले बालाजी मंदिर को बार्यों और शामिल कर ज्यांनकी बाबा मंदिर तक ! यहाँ से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए सुरेका शिवालय तक !
	21	बाकरे वाले स्टेडियम की उतरी पश्चिमी कूट से दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए सुरोलिया कुए को बार्यों और शामिल करते हुए शुभकरण दर्जी के मकान व् दुकान तक ! यहाँ से पूर्व में चलते मुनिचंद चेजारा की दुकान तक ! यह से उतर में सलामुदीन लीलगर के मकान व् तिराहा तक! यहाँ से पूर्व में बालाजी जनरल स्टोर को बार्यों और शामिल कर महादेव माली के कुए व् जाव को बार्यों और शामिल कर तिराहा से उतर में चलते हुए पोरवाल गेस्ट हाउस को दाहिनी ओर छोड़कर एक अनुमानित रेखा पार करते हुए जावं की सीमा सीमा चलते हुए मंडावा रोड तक! यहा से पश्चिम में बाकरे वाला स्टेडियम की उतरी-पूर्वी कूट से पश्चिम में मंडावा रोड चलते हुए बाकरे वाला स्टेडियम की उतरी-पश्चिम कूट का समस्त बाया क्षेत्र !
	22	बिहारी लाल पुत्र श्री मोहनलाल चेजारा के मकान से दक्षिण में रास्ते चलते हुए गिरधारीलाल चेजारा के मकान तक! यहाँ से पूर्व में स्टैंड रोड चलते हुए नरसी लाल चेजारा के घर को बार्यों और शामिल कर बनवारी लाल माली की दुकान तक! यहाँ से उतर में चलते हुए बल्लाराम मास्टर के घर को बार्यों और शामिल कर बजरंग लाल दर्जी के मकान तक! यहाँ से पश्चिम में चलकर बाबू लाल कुमावत के मकान तक ! यहाँ से उत्तर में चलते हुए हुसैन नीलगर के मकान तक ! यहाँ से पश्चिम में महावीर माली के घर तक ! यहाँ से थोड़ा दक्षिण में पोरवाल गेस्ट हाउस को बार्यों और शामिल कर श्रीराम योगी के घर तक ! यहाँ से पश्चिम में चलते हुए बिहारी लाल पुत्र श्री मोहन लाल चेजारा के घर तक का समस्त बाया क्षेत्र !
	23	लूणचंद चेजारा की दुकान से पूर्व में नन्दलाल बेरीवाला के नोहरे तक! यहाँ से उतर में रास्ते रास्ते चलते हुए सब्बीर लीलगर के घर तक !यहाँ से पूर्व में इकबाल पुत्र ज्यानी लीलगर के मकान को बांयी और शामिल कर बाबुलाल लीलगर के मकान तक ! यहाँ से उतर में चलते हुए मस्जिद को दायी ओर छोड़कर रफीक लुहार के घर तक ! यहाँ से पूर्व में नरेश वाल्मीकि के मकान को बांयी ओर शामिल कर व्

		एक अनुमानित रेखा पार कर महावीर जी धुवारिया के खेत को बांयी ओर शामिल कर जयपुर लुहारू रोड तक! यहाँ से उतर में चलते हुए मंडावा मोड़ को पार कर न.पा.सरहद तक! यहाँ से पश्चिम में न.पा. सरहद-सरहद चलते हुए वापिस मंडावा सड़क पार कर जीतेन्द्र पोरवाल की दुकान को बांयी ओर शामिल कर दक्षिण में कच्चे रास्ते चलते हुए रोहिडा वाला मंदिर को बांयी ओर शामिल कर मक्खन लाल वाल्मीकि के मकान तक ! यहाँ से सड़क पार कर दक्षिण में मुनीम के नोहरे तक ! यहा से दक्षिण में सड़क सड़क चलकर श्री मोहनलाल के मकान तक ! यहाँ से इस मकान को बांयी ओर शामिल व् रसूल लीलगर के मकान को शामिल कर लूनचंद चेजारा के मकान तक! यहाँ यहाँ से दक्षिण में रास्ते रास्ते चलते हुए केशर देव दर्जा के मकान को बांयी ओर शामिल कर श्री लूणचंद चेजारा की दुकान तक का समस्त बाया क्षेत्र !
	24	नगरपालिका सरहद बीहड़ भूमि से दक्षिण में शमशानों के सहारे सहारे चलते हुए शमशानों (मुक्तिधाम) को बार्यों और शामिल कर मंडावा रोड को पार कर एक अनुमानित रेखा से चलते हुए महादेव माली के जाव को दाहिनी और छोड़ते हुए इब्राहीम लीलगर के मकान तक !यहाँ से सड़क सड़क चलते हुए पोरवाल गेस्ट हाउस व गोपाल चेजारा के मकान को दाहिनी और छोड़कर पूर्व में हुसैन लीलगर के मकान तक! यहाँ से दक्षिण में हुसैन लीलगर को दाहिनी और छोड़कर मिनुदीन धोबी को बार्यों और शामिल कर गोपीराम चेजारा के घर तक! यहाँ से पूर्व में सुरेश कुमार चेजारा व रसूल लीलगर तथा असरफ बंगाली के घर को बार्यों और शामिल कर रामवतार चेजारा के मकान तक! यहाँ से उत्तर में रास्ते रास्ते चलते हुए गोपीराम मास्टर को शामिल करते हुए रामवतार रेगर के मकान तक ! यहाँ से पूर्व में एक अनुमानित रेखा पार करके रामदेवजी के मंदिर को बार्यों और शामिल करके दलीप कुमार मीणा व रफीक तगाला के खाली प्लाट तक ! यहाँ से उत्तर में रास्ते रास्ते चलते हुए गोपाल राम वाल्मीकि के मकान तक ! यहाँ से पुनः उत्तर में सड़क पार कर नटवरलाल पोरवाल के मकान को बार्यों और शामिल कर कच्चे रास्ते रास्ते चलते हुए मनिहारो के मकान को बार्यों और शामिल कर अशोक कुमार शर्मा के प्लाट तक ! (मंडावा रोड तक) !यहाँ से रोड को पार कर जीतेन्द्र पोरवाल की दुकान को दाहिनी और छोड़कर पालिका व् ग्राम मोहब्बतसरी की सरहद तक ! यहाँ से पश्चिम में नगरपालिका सरहद तक का समस्त बाया क्षेत्र !

25	<p>शमशानघाट के मुख्यद्वार से उत्तर में चलते हुए पालिका सरहद तक! यहाँ पश्चिम में ग्राम जाटवाली की सरहद तक ! यहाँ से दक्षिण में औद्धोगिक प्रशिक्षण केंद्र व् बिजली बोर्ड को बांयी ओर शामिल करते हुए मंडावा रोड चौराहे तक! यहाँ से पश्चिम मुकुंदगढ़ की सरहद चलते हुए रामस्वरूप चेजारा के घर तक ! यहाँ से दक्षिण में चलते हुए महेश चेजारा के घर तक! यहाँ से पूर्व में कनोडिया कुए व् मंडावा रोड तक! यहाँ दक्षिण में सड़क सड़क चलते हुए श्री विष्णु चौधरी के घर तक! यहाँ से पूर्व में साबुन फैक्ट्री को दाहिनी ओर छोड़ते हुए कुम्भजी दरबार रोड तक! यहाँ से उत्तर में कुम्भजी दरबार को बायीं ओर शामिल करते हुए मंडावा रोड को पार कर तहसील को बायीं ओर शामिल कर शमशान घाट के मुख्य द्वार तक !</p>
----	--

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका मुकुंदगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।